



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 144) पटना, बुधवार, 17 फरवरी 2010

कार्यालय मुख्य अभियंता,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश  
1 फरवरी 2010

सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0- 62/2007-124—जिला अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक 597, दिनांक 11 अप्रील 2007 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 सुरेश प्रसाद सिन्हा, डीलर, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया आश्रित पुत्री सुश्री श्वेता राज को लघु सिंचाई अंचल, गया के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वर्ग-3 श्रेणी पद पर वेतनमान रु0 3050-4590 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

2. सुश्री राज पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व0 सुरेश प्रसाद सिन्हा के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, गया, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, गया स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल गया द्वारा करा लिया जायेगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में सुश्री श्वेता राज को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे उक्त पदाधिकारी सुश्री श्वेता राज की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त हाने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु सुश्री राज को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(ह0) अस्पष्ट,  
मुख्य अभियंता  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 144-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>